



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/पीएण्डए/ भर्ती/ अनुबंध/चिकित्सा अधिकारी/2022/3

दिनांक 21 मार्च 2022

अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी का प्रवेश चयन

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिरल कंपनी, सीएसएल में अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद को भरने के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से प्रवेश चयन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करती है।

I. पद का नाम, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कर्तव्य

तालिका - 1

पद का नाम	शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कर्तव्य
अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी	<p><u>शैक्षिक योग्यता:</u></p> <p>क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री/ समतुल्य। ख) भारतीय चिकित्सा परिषद्/ राज्य चिकित्सा परिषद के साथ स्थायी पंजीकरण।</p> <p><u>अनुभव:</u></p> <p>क) अनुभव अनिवार्य नहीं है। ख) चिकित्सा बिलों के सत्यापन में विशेषतः तीसरे पक्ष के प्रशासकों (टीपीए) के साथ अनुभव।</p> <p><u>कर्तव्य:</u></p> <p>क. प्राथमिक कर्तव्य अस्पतालों से प्राप्त बिलों का सत्यापन और सीएसएल योजना के अनुसार पात्रता की पुष्टि करना होगा। ख. अन्य जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:- ए) कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रखरखाव, बी) चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना, सी) पूर्व रोजगार चिकित्सा रिपोर्ट का सत्यापन, डी) सीएसएल चिकित्सा केंद्रमें सभी पात्र व्यक्तियों को परामर्श और बाह्य रोगी उपचार, दिनों के किसी भी समय चिकित्सा आपात स्थिति को संभालना, दुर्घटनाओं के मामले में प्राथमिक उपचार प्रदान करें, उन अस्पतालों के साथ अनुवर्ती उपचार जहां कर्मचारियों या उनके आश्रितों को उल्लिखित/ प्रविष्ट किया जाता है ई) एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के तहत अनुपालन, एफ) समय- समय पर सौंपे गए कोई अन्य कार्य।</p>



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रियल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

II. महत्वपूर्ण तिथियां:

प्रवेश के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की तिथि	:	31 मार्च 2022
समय	:	0900 बजे से 1400 बजे तक
आवेदन प्राप्ति का स्थान	:	आगंतुक सुविधा केंद्र, रविपुरम गेट, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची- 682015

III. रिक्तियों की संख्या:

तालिका - 2

पद का नाम	कुल
अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी	2

अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।

IV. अनुबंध की अवधि:

उपरोक्त पद अस्थायी है और एक वर्ष की अवधि के लिए है।

V. पारिश्रमिक:

क) एक वर्ष के अनुबंध हेतु पद के लिए लागू भुगतान ₹ 50,000/- प्रति माह होगा।

ख) उपरोक्त के अलावा, ₹ 15,000/- (सांविधिक वेतन सीमा) के लिए ईपीएफ अंशदान लागू होगा।

VI. आयु:

पद के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 31 मार्च 2022 तक 65 वर्ष होगी, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 01 अप्रैल 1957 को या उसके बाद होना चाहिए।

VII. चयन की रीति और आवेदन प्राप्त करने का तरीका:

क) चयन की विधि सीएसएल, कोच्ची में आयोजित होने वाले **वैयक्तिक साक्षात्कार (100 अंकों में)** या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से साक्षात्कार के ज़रिए होगी।

ख) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदक दिनांक 31 मार्च 2022 को 0900 बजे से 1400 बजे तक पद के लिए प्रवेश चयन में शामिल होंगे और आगंतुक सुविधा केंद्र, रविपुरम गेट, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची- 682015 पर प्रमाणपत्र की स्वयं- साक्ष्यांकित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

जमा करेंगे। हमारे वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृ. → सीएसएल) पर इस विज्ञापन के साथ आवेदन प्रारूप **अनुबंध 1** में दिया गया है।

ग) आवेदनों की संख्या के आधार पर, आवेदनों का सत्यापन बाद में किया जाएगा और **प्रमाणपत्र सत्यापन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को केवल उसी दिन या बाद की तिथियों में वैयक्तिक साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।**

घ) किसी अन्य तरीका में जमा किए गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार जमा किया गया आवेदन अंतिम होगा।

ङ) प्रवेश चयन में भाग लेनेवाले आवेदकों को निम्नलिखित जमा करना चाहिए :

- (i) हाल ही के पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ **अनुबंध 1** में सूचित आवेदन प्रपत्र।
- (ii) एक फोटो पहचान प्रमाण (मूल रूप में)।
- (iii) आधार की मूल व स्वयं साक्ष्यांकित प्रति।
- (iv) आयु/ जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाण और प्रमाणक और प्रमाणपत्रों की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतियां।
- (v) आरटीपीसीआर जांच परिणाम

च) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण और अहस्ताक्षरित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में जूठा/ कचरे विवरण भरने से आपके आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

छ) जो आवेदन अधूरे हैं, निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं, पढने योग्य नहीं हैं, आवश्यक संलग्नकों के बिना हैं, तो बिना कोई कारण बताए उसे तुरंत ही अस्वीकार किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ज) सत्यापन के समय और शामिल होने के समय या किसी अन्य स्थिति पर आयु, योग्यता, जाति, अनुभव, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण के लिए **मूल प्रमाणपत्र** और इन सभी प्रमाणपत्रों की **स्वयं साक्ष्यांकित प्रतियों** को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और **मूल प्रमाणपत्र के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। यदि मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल हो जाए तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**

VIII. शर्तें:

क. आरक्षण :

- (i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (ii) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए एक वैध दिव्यांगजता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।
- (iii) अ.पि.व.(गैर-क्रीमी लेयर) या अ.जा.या अ.ज.जा. से जुड़े आवेदकों को राजस्व प्राधिकरण जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो, उनके द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में एक वैध हालिया सामुदायिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

ख. योग्यता:

- (i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई /या राज्य/ केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण से द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- (ii) प्रवेश चयन के समय उम्मीदवार खंड I में बताए अनुसार सभी शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतियां प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसा न करने पर उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग. सामान्य:

- (i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**
- (ii) कोविड-19 महामारी की स्थिति के वर्तमान संदर्भ में, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे प्रमाणपत्र सत्यापन व साक्षात्कार के दौरान और सीएसएल परिसर के अंदर सभी सुरक्षा और संरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और नीचे सूचीबद्ध निर्देशों का अनुसरण करें:-
 - (क) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा और चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नेगटिव टेस्ट परिणाम (चयन की तारीख से 2 दिनों के भीतर लिया गया) प्रस्तुत करना होगा।**
 - ख) अंतर-राज्य/अंतर-जिला यात्रा करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने से पहले सरकार/आईसीएमआर के मौजूदा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
 - ग) जहां तक संभव हो भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे परिवहन का उपयोग करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें और व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे मास्क, गोगिल्स, दस्ताने आदि पहनें और नग्न हाथों का उपयोग करके सतहों को छूने से बचें।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- घ) प्रवेश चयन में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को नाक, मुंह, टुड्डी आदि को ठीक से ढकने वाले उचित फेस मास्क पहनना चाहिए। उम्मीदवार पहचान के लिए गेट पर मास्क हटाएंगे। **बिना फेस मास्क वाले उम्मीदवारों को परीक्षा स्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
- ङ) परीक्षा स्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को गेट, प्रवेश द्वार आदि पर चिन्हित स्थानों पर खड़ा होना होगा ताकि इन स्थानों पर मानदंडों के अनुसार सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके।
- च) सभी उम्मीदवार किसी भी खंभे, किसी भी छड़, हाथ के रेल आदि को नग्न हाथों से छूने से बचेंगे।
- छ) सभी उम्मीदवार सुरक्षा जांच के लिए गेट पर अपने जैकट/ओवरकोट आदि उतारेंगे।
- ज) गेट से प्रवेश करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए थर्मल स्कैनर के साथ अनिवार्य स्क्रीनिंग की जाएगी।
- झ) मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और कतार प्रणाली का सख्त पालन किया जाएगा।
- ञ) **किसी भी उम्मीदवार को पॉसिटिव परिणाम या बुखार और खांसी के साथ सांस लेने में समस्या पाए जाने पर चयन प्रक्रिया में शामिल होने हेतु प्रवेश/अनुमति से वंचित किया जाएगा।**
- ट) सभी उम्मीदवार अपना **व्यक्तिगत सैनिटाइज़र (50 मिली)**, पारदर्शी पानी की बोतल/अन्य जलपान लाएंगे और व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचें।
- ठ) सभी उम्मीदवार अपने स्वयं के स्टेशनरी मद लाएंगे और ऐसी वस्तुओं को साझा करने से बचेंगे।
- ड) प्रवेश-चयन/चयन परीक्षा के स्थान के अलावा किसी भी अन्य क्षेत्रों/भवनों/ सीएसएल के कार्यस्थलों के परिसरों पर आजावाही सख्त वर्जित होगी।
- (iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/ अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाओं के समर्थन में किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ी विवरण मांगने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल, निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/गैर-प्राप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस सिलसिले में कोई पत्राचार प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
- (iv) **चयन में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (v) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं और शिपयार्ड, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- (vi) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- (vii) केवल आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- (viii) नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- (ix) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- (x) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (xi) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- (xii) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी झूठा/गलत है या उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/अस्वीकार की जा सकती है।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (xiii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- (xiv) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- (xv) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- (xvi) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों की शर्तरहित स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- (xvii) कोई भी स्पष्टीकरण हेतु, कृपया ई मेल career@cochinshipyard.in द्वारा हमें संपर्क करें।

**“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”
“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”**

ह/-
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)